



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श०)
(सं० पटना 802) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर 2014

सं० 22/नि०सि०(सिवान०)—11-04/2010/1404—श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०—738 दिनांक 7.5.10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297 दिनांक 3.9.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री राय को निलंबन से मुक्त करते हुए अधिसूचना सं०—641 दिनांक 1.6.11 द्वारा निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया:—

1. निन्दन वर्ष 2009—10
2. भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं देय नहीं होगा। किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री राय द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अधिसूचना सं०—895 दिनांक 8.8.12 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० सं०-23010/12 दायर किया गया जिसमें दिनांक 7.3.14 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय पारित करते हुए विभागीय दण्डादेश अधिसूचना सं०-641 दिनांक 1.6.11 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने से संबंधित अधिसूचना सं०-895 दिनांक 8.8.12 को निरस्त कर दिया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार को जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर श्री राय से कारण पृच्छा प्राप्त कर समुचित निर्णय लेने आदेश पारित किया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में मामले की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त निर्णय का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-641 दिनांक 1.6.11 एवं 895 दिनांक 8.8.12 को निरस्त करने एवं श्री राय से जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

अतः वर्णित स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं०-641 दिनांक 1.6.11 एवं 895 दिनांक 8.8.12 को निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री राय को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 802-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>